



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्क

खंड 36

अप्रैल 30, 2021

संख्या 18

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

| मद                                      | 2020           | 2021           |                | घट - बढ़     |               |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                                         | 24 अप्रैल      | 16 अप्रैल      | 23 अप्रैल      | सप्ताह       | वर्ष          |
|                                         | 1              | 2              | 3              | 4            | 5             |
| 1 जारी नोट                              | 2496623        | 2872907        | 2880261        | 7354         | 383638        |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 2496611        | 2872895        | 2880247        | 7352         | 383636        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 12             | 12             | 14             | 2            | 2             |
| 2 जमा राशियां                           |                |                |                |              |               |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 100            | 101            | 100            | -1           | 0             |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               |                |                |                |              |               |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 42             | 42             | 42             | 0            | 0             |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 423731         | 561141         | 552893         | -8248        | 129162        |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 5255           | 6405           | 6462           | 58           | 1207          |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 28192          | 34319          | 36017          | 1697         | 7825          |
| 2.7 अन्य                                | 765268         | 865814         | 877502         | 11688        | 112234        |
| 3 अन्य देयताएं                          | 1462217        | 1456515        | 1511087        | 54573        | 48870         |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>5181428</b> | <b>5797245</b> | <b>5864364</b> | <b>67120</b> | <b>682936</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 3402626        | 4047341        | 4091804        | 44463        | 689178        |
| 2 सोना                                  | 251551         | 262843         | 269822         | 6979         | 18271         |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 1100775        | 1359733        | 1378479        | 18746        | 277704        |
| 4 ऋण और अग्रिम                          |                |                |                |              |               |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | 111985         | -              | -              | -            | -111985       |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 1063           | 5384           | 2363           | -3021        | 1300          |
| 4.3 नाबार्ड                             | 0              | 21426          | 21426          | -            | 21426         |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 288194         | 89851          | 89731          | -120         | -198463       |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | -              | -              | -              | -            | -             |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | -              | -              | -              | -            | -             |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | -              | -              | -              | -            | -             |
| 4.8 अन्य                                | 11898          | 6717           | 6716           | -1           | -5182         |
| 5 खरीदे और धुनाए गए बिल                 |                |                |                |              |               |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | -              | -              | -              | -            | -             |
| 5.2 खजाना                               | -              | -              | -              | -            | -             |
| 6 निवेश                                 | 1964           | 1964           | 1964           | 0            | 0             |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 11372          | 1987           | 2060           | 73           | -9312         |

\* डाटा अनंतिम है।

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 23 अप्रैल 2021 को |                | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |         |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|
|                                           |                   |                | सप्ताह                     |                | मार्च 2021 की समाप्ति पर |                | वर्ष    |                |
|                                           | ₹ करोड़           | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़                    | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़                  | मिलि. अम. डॉलर | ₹ करोड़ | मिलि. अम. डॉलर |
|                                           | 1                 | 2              | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7       | 8              |
| 1 कुल भंडार                               | 4381700           | 584107         | 51613                      | 1701           | 162747                   | 7123           | 715914  | 104652         |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 4063227           | 541647         | 44171                      | 1062           | 139059                   | 4953           | 687137  | 100083         |
| 1.2 स्वर्ण                                | 269822            | 35969          | 6979                       | 615            | 22099                    | 2088           | 18271   | 3068           |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 11288             | 1505           | 150                        | 7              | 424                      | 19             | 423     | 84             |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 37363             | 4987           | 312                        | 18             | 1165                     | 63             | 10082   | 1417           |

\* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

| 23 अप्रैल, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹537119 करोड़ | 2021      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                   | 10 अप्रैल | 11 अप्रैल | 12 अप्रैल | 13 अप्रैल | 14 अप्रैल | 15 अप्रैल | 16 अप्रैल | 17 अप्रैल | 18 अप्रैल | 19 अप्रैल | 20 अप्रैल | 21 अप्रैल | 22 अप्रैल | 23 अप्रैल |
|                                                                                                                   | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                      | 533419    | 528591    | 580445    | 560771    | 527227    | 510295    | 561141    | 528148    | 524939    | 512064    | 592134    | 513745    | 516348    | 552893    |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                 | 99.3      | 98.4      | 108.1     | 104.4     | 98.2      | 95.0      | 104.5     | 98.3      | 97.7      | 95.3      | 110.2     | 95.6      | 96.1      | 102.9     |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

| मद                                             | 9 अप्रैल 2021<br>को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |               |               |                |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                |                           | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |               | वर्ष-दर-वर्ष  |                |
|                                                |                           |                           | 2020-21              | 2021-22       | 2020          | 2021           |
|                                                | 1                         | 2                         | 3                    | 4             | 5             | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                           |                           |                      |               |               |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 187998                    | -7868                     | 8856                 | -7868         | 71542         | -55207         |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 47714                     | 6834                      | 664                  | 6834          | -12846        | -16951         |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 17935                     | 92                        | -779                 | 92            | 6743          | 2550           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                           |                           |                      |               |               |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 15214886                  | 101357                    | 147098               | 101357        | 1184427       | 1500295        |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | 0.7                       | 1.1                  | 0.7           | 9.5           | 10.9           |
| 2.1.1 मांग                                     | 1743506                   | -117703                   | -140818              | -117703       | 107962        | 267320         |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 13471380                  | 219060                    | 287916               | 219060        | 1076465       | 1232975        |
| 2.2 उधारियां                                   | 244596                    | 571                       | -10755               | 571           | -73264        | -54088         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 582899                    | -73715                    | -40165               | -73715        | 81163         | 19388          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>89650</b>              | <b>-625</b>               | <b>-29693</b>        | <b>-625</b>   | <b>157583</b> | <b>-166280</b> |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>622231</b>             | <b>-11210</b>             | <b>-134882</b>       | <b>-11210</b> | <b>-95611</b> | <b>133667</b>  |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 86579                     | -4169                     | -317                 | -4169         | 7468          | -364           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 535652                    | -7041                     | -134565              | -7041         | -103079       | 134031         |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                           |                           |                      |               |               |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 147069                    | 3768                      | 5996                 | 3768          | -63953        | -14328         |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 8903                      | -1750                     | 425                  | -1750         | -8231         | -11794         |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 15761                     | -1005                     | -5432                | -1005         | -3061         | -9339          |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 29211                     | 2226                      | 2169                 | 2226          | 14472         | -26990         |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>4549320</b>            | <b>86794</b>              | <b>211804</b>        | <b>86794</b>  | <b>517914</b> | <b>590166</b>  |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | 1.9                       | 5.7                  | 1.9           | 15.1          | 14.9           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 4548184                   | 86552                     | 219302               | 86552         | 517799        | 590186         |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 1136                      | 242                       | -7497                | 242           | 114           | -20            |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>10889179</b>           | <b>-60333</b>             | <b>-32957</b>        | <b>-60333</b> | <b>693118</b> | <b>551275</b>  |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | -0.6                      | -0.3                 | -0.6          | 7.2           | 5.3            |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 49699                     | -11555                    | 2309                 | -11555        | 18143         | -4374          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                              | 10839480                  | -48778                    | -35266               | -48778        | 674975        | 555649         |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 10674101                  | -62392                    | -25272               | -62392        | 719222        | 549865         |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 30735                     | 204                       | -1178                | 204           | -421          | 6255           |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 130057                    | 2174                      | -1095                | 2174          | -5790         | -14531         |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 19925                     | -469                      | -2453                | -469          | -7308         | 1920           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 34361                     | 150                       | -2959                | 150           | -12584        | 7766           |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                          | 2020      | 2021      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           | 24 अप्रैल | 26 मार्च  | 2 अप्रैल  | 9 अप्रैल  | 16 अप्रैल | 23 अप्रैल |
|                                                           | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                             |           |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 3.00      | 3.00      | 3.50      | 3.50      | 3.50      | 3.50      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 18.00     | 18.00     | 18.00     | 18.00     | 18.00     | 18.00     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 3.73      | 4.19      | ..        | 4.09      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 74.86     | 72.45     | ..        | 71.57     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | -62.59    | 37.43     | ..        | -59.53    | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 28.93     | 29.53     | ..        | 29.90     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | 177.32    | 46.26     | ..        | 85.63     | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                               |           |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रेपो दर                                            | 4.40      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| रिर्वर्स रेपो दर                                          | 3.75      | 3.35      | 3.35      | 3.35      | 3.35      | 3.35      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                        | 4.65      | 4.25      | 4.25      | 4.25      | 4.25      | 4.25      |
| बैंक दर                                                   | 4.65      | 4.25      | 4.25      | 4.25      | 4.25      | 4.25      |
| आधार दर                                                   | 8.15/9.40 | 7.40/8.80 | 7.40/8.80 | 7.40/8.80 | 7.40/8.80 | 7.40/8.80 |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | 7.10/7.75 | 6.55/7.05 | 6.55/7.05 | 6.55/7.05 | 6.55/7.05 | 6.55/7.05 |
| सावधि जमा दर > 1 वर्ष                                     | 5.70/6.00 | 4.90/5.50 | 4.90/5.50 | 4.90/5.50 | 4.90/5.50 | 4.90/5.50 |
| बचत जमाराशि दर                                            | 2.75/3.50 | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 | 2.70/3.00 |
| मांग मुद्रा दर (भारत आसत)                                 | 4.09      | 3.25      | 3.25      | 3.14      | 3.21      | 3.22      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 3.73      | 3.33      | 3.32      | 3.35      | 3.35      | 3.34      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 3.66      | 3.47      | 3.47      | 3.59      | 3.61      | 3.53      |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 3.74      | 3.79      | 3.83      | 3.74      | 3.76      | 3.75      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)                  | 6.54      | 6.32      | 6.34      | 6.21      | 6.31      | 6.28      |
| <b>@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>           |           |           |           |           |           |           |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 76.42     | 72.40     | 73.50     | 74.89     | 74.56     | 74.91     |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पाट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 82.21     | 85.31     | 86.10     | 89.04     | 89.19     | 90.09     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह                    | 3.93      | 6.80      | 4.90      | 4.19      | 5.07      | 5.45      |
| 3-माह                                                     | 3.85      | 5.64      | 4.84      | 4.35      | 4.94      | 5.07      |
| 6-माह                                                     | 3.93      | 5.47      | 5.01      | 4.58      | 4.81      | 4.86      |

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                 | निम्न को बकाया  |                 | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |            |               |            |                |             |                |             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                                                    | 2021            |                 | पखवाड़ा                    |            | वित्त वर्ष में अब तक |            |               |            | वर्ष-दर-वर्ष   |             |                |             |
|                                                    |                 |                 |                            |            | 2020-21              |            | 2021-22       |            | 2020           |             | 2021           |             |
|                                                    | 26 मार्च        | 9 अप्रैल        | राशि                       | %          | राशि                 | %          | राशि          | %          | राशि           | %           | राशि           | %           |
|                                                    | 1               | 2               | 3                          | 4          | 5                    | 6          | 7             | 8          | 9              | 10          | 11             | 12          |
| <b>एम3</b>                                         | <b>18773048</b> | <b>18907383</b> | <b>134335</b>              | <b>0.7</b> | <b>189612</b>        | <b>1.1</b> | <b>134335</b> | <b>0.7</b> | <b>1569000</b> | <b>10.2</b> | <b>1917807</b> | <b>11.3</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                     |                 |                 |                            |            |                      |            |               |            |                |             |                |             |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 2757754         | 2787941         | 30186                      | 1.1        | 39810                | 1.7        | 30186         | 1.1        | 303955         | 14.6        | 398382         | 16.7        |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 1984261         | 1867606         | -116655                    | -5.9       | -141212              | -8.1       | -116655       | -5.9       | 112793         | 7.6         | 271126         | 17.0        |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 13983686        | 14205545        | 221859                     | 1.6        | 290095               | 2.3        | 221859        | 1.6        | 1140666        | 9.6         | 1241434        | 9.6         |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 47347           | 46292           | -1055                      | -2.2       | 919                  | 2.4        | -1055         | -2.2       | 11586          | 41.6        | 6866           | 17.4        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                 |                 |                            |            |                      |            |               |            |                |             |                |             |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 5692569         | 6045801         | 353232                     | 6.2        | 405051               | 8.2        | 353232        | 6.2        | 835303         | 18.4        | 680388         | 12.7        |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 982063          | 1246043         | 263980                     |            | 178856               |            | 263980        |            | 288104         |             | 74995          |             |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 4710506         | 4799759         | 89252                      | 1.9        | 226195               | 5.7        | 89252         | 1.9        | 547199         | 15.0        | 605394         | 14.4        |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 11610050        | 11552069        | -57981                     | -0.5       | -47361               | -0.4       | -57981        | -0.5       | 740777         | 7.2         | 560786         | 5.1         |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 8524            | 8672            | 147                        |            | -5554                |            | 147           |            | -1453          |             | 1060           |             |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 11601526        | 11543398        | -58129                     | -0.5       | -41807               | -0.4       | -58129        | -0.5       | 742230         | 7.2         | 559726         | 5.1         |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 4511386         | 4648873         | 137486                     | 3.0        | 40335                | 1.1        | 137486        | 3.0        | 754589         | 24.4        | 807501         | 21.0        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 26819           | 26819           | -                          | -          | -                    | 0.0        | 0             | 0.0        | 460            | 1.8         | 472            | 1.8         |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 3067777         | 3366179         | 298403                     | 9.7        | 208413               | 6.9        | 298403        | 9.7        | 762130         | 30.8        | 131340         | 4.1         |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 1331957         | 1475837         | 143880                     | 10.8       | 49884                | 3.6        | 143880        | 10.8       | 356310         | 33.2        | 47611          | 3.3         |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |                | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |            |                      |             |              |            |               |            |               |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                  | 2021           |                | सप्ताह                     |            | वित्त वर्ष में अब तक |             |              |            | वर्ष-दर-वर्ष  |            |               |             |
|                                                                  |                |                |                            |            | 2020-21              |             | 2021-22      |            | 2020          |            | 2021          |             |
|                                                                  | 26 मार्च       | 23 अप्रैल      | राशि                       | %          | राशि                 | %           | राशि         | %          | राशि          | %          | राशि          | %           |
|                                                                  | 1              | 2              | 3                          | 4          | 5                    | 6           | 7            | 8          | 9             | 10         | 11            | 12          |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | <b>3490140</b> | <b>3547947</b> | <b>611</b>                 | <b>0.0</b> | <b>-9988</b>         | <b>-0.3</b> | <b>57807</b> | <b>1.7</b> | <b>251616</b> | <b>9.1</b> | <b>528229</b> | <b>17.5</b> |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                |                |                            |            |                      |             |              |            |               |            |               |             |
| 1.1 संचालन में करेंसी                                            | 2858547        | 2907067        | 7352                       | 0.3        | 75659                | 3.1         | 48520        | 1.7        | 342990        | 15.7       | 384096        | 15.2        |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 584246         | 595372         | -6493                      | -1.1       | -86710               | -15.9       | 11126        | 1.9        | -103284       | -18.4      | 138194        | 30.2        |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 47347          | 45509          | -248                       | -0.5       | 1063                 | 2.8         | -1839        | -3.9       | 11910         | 43.1       | 5939          | 15.0        |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                |                |                            |            |                      |             |              |            |               |            |               |             |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 982063         | 1144052        | -70814                     |            | 222325               |             | 161989       |            | 371708        |            | -70465        |             |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 980431         | 1141731        | -67793                     |            | 223756               |             | 161300       |            | 370712        |            | -71766        |             |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | -368237        | -470231        | 74470                      |            | -225503              |             | -101994      |            | -498070       |            | -43835        |             |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | -376761        | -478902        | 74470                      |            | -218463              |             | -102141      |            | -495515       |            | -46380        |             |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 4181453        | 4361389        | 51442                      | 1.2        | 71200                | 2.0         | 179937       | 4.3        | 740522        | 25.4       | 699787        | 19.1        |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 26819          | 26819          |                            |            | 12                   | 0.0         | 0            | 0.0        | 449           | 1.7        | 460           | 1.7         |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 1331957        | 1514082        | 54487                      | 3.7        | 78022                | 5.7         | 182125       | 13.7       | 362993        | 33.2       | 57718         | 4.0         |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

| दिनांक         | चलनिधि समायोजन सुविधा |              |                     |                            | एमएसएफ* | स्थायी चलनिधि सुविधा | बाजार स्थिरीकरण योजना | ओएमओ (एकमुश्त) |      | दीर्घकालीन रेपो परिचालन & | लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन # | म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा | एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना** | निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8) |         |
|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------|------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
|                | रेपो                  | रिवर्स रेपो* | परिवर्तनशील रेपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर |         |                      |                       | विक्रय         | क्रय |                           |                                  |                                           |                                              |                                                               |         |
|                | 1                     | 2            | 3                   | 4                          |         |                      |                       | 5              | 6    |                           |                                  |                                           |                                              |                                                               | 7       |
| 19 अप्रैल 2021 | -                     | 489904       | -                   | -                          | 0       | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -489904 |
| 20 अप्रैल 2021 | -                     | 378478       | -                   | -                          | 0       | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -378478 |
| 21 अप्रैल 2021 | -                     | 48336        | -                   | -                          | 5974    | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -42362  |
| 22 अप्रैल 2021 | -                     | 421947       | -                   | -                          | 0       | -                    | -                     | -              | -    | 15000                     | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -406947 |
| 23 अप्रैल 2021 | -                     | 390042       | -                   | 200017                     | 149     | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -589910 |
| 24 अप्रैल 2021 | -                     | 5969         | -                   | -                          | 130     | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -5839   |
| 25 अप्रैल 2021 | -                     | 6644         | -                   | -                          | 82      | -                    | -                     | -              | -    | -                         | -                                | -                                         | -                                            | -                                                             | -6562   |

\*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और ऑन टैप लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन शामिल हैं। ऋण (-) चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौती को दर्शाता है।

\*\*जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2020  |       | 2021  |       | वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                     | फरवरी | मार्च | फरवरी | मार्च | पिछले महीने की तुलना में          | मार्च-अंत की तुलना में | वर्ष-दर-वर्ष |
|                                                                     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5                                 | 6                      | 7            |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)</b>                          | 149.1 | 148.6 | 156.6 | 156.8 | 0.1                               | 5.5                    | 5.5          |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 150.4 | 149.8 | 156.7 | 156.7 | 0.0                               | 4.6                    | 4.6          |
| 1.2 शहरी                                                            | 147.7 | 147.3 | 156.5 | 156.9 | 0.3                               | 6.5                    | 6.5          |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)</b> | ..    | ..    | 119.0 | ..    | ..                                | ..                     | ..           |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)</b>                            | 122.2 | 120.4 | 127.3 | 129.3 | 1.6                               | 7.4                    | 7.4          |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 142.8 | 137.4 | 145.4 | 146.2 | 0.6                               | 6.4                    | 6.4          |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 103.6 | 99.5  | 104.2 | 109.7 | 5.3                               | 10.3                   | 10.3         |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 118.8 | 118.6 | 125.7 | 127.3 | 1.3                               | 7.3                    | 7.3          |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                         | 1                      | 2                     |
| 12 मार्च 2021  | 57410                   | 11373                  | 3.26 - 5.00           |
| 26 मार्च 2021  | 80095                   | 25590                  | 3.28 - 5.12           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ करोड़) | पखवाड़े के दौरान       |                       |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|                |                         | जारी राशि<br>(₹ करोड़) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                         | 1                      | 2                     |
| 31 मार्च 2021  | 364374                  | 96417                  | 3.32 - 13.37          |
| 15 अप्रैल 2021 | 382838                  | 35737                  | 3.17 - 13.09          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

| मद                       | समाप्त सप्ताह     |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | 24 अप्रैल<br>2020 | 16 अप्रैल<br>2021 | 23 अप्रैल<br>2021 |
|                          | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1 मांग मुद्रा            | 19171             | 13048             | 18580             |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 1706              | 8575              | 1919              |
| 3 सीबीएलओ#               | 365866            | 680085            | 510435            |
| 4 बाजार रेपो             | 239087            | 432278            | 388758            |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | 1568              | 11537             | 2883              |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

| 23 अप्रैल<br>2021 को | प्रमुख धारक |                      |               | कुल    |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--------|
|                      | बैंक        | प्राथमिक<br>व्यापारी | राज्य सरकारें |        |
|                      | 1           | 2                    | 3             |        |
| 91-दिवसीय            | 4435        | 15659                | 23875         | 129684 |
| 182-दिवसीय           | 86910       | 32470                | 9843          | 182663 |
| 364-दिवसीय           | 116805      | 156321               | 18090         | 455786 |
| सीएमबी               |             |                      |               |        |

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि                |                                  |         | जुटाई गई निवल राशि               |                                  |         |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
|                  | 2021 - 22<br>(23 अप्रैल 2021 तक) | 2020 - 21<br>(24 अप्रैल 2020 तक) | 2020-21 | 2021 - 22<br>(23 अप्रैल 2021 तक) | 2020 - 21<br>(24 अप्रैल 2020 तक) | 2020-21 |
|                  | 1                                | 2                                | 3       | 4                                | 5                                | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 49180                            | 39000                            | 1370324 | -4092                            | 3392                             | 1143114 |
| 2. राज्य सरकारें | 8950                             | 52255                            | 798816  | 1977                             | 45955                            | 651777  |

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।